SPAL WORKS DEPARTMENT OF THE SPALE OF THE SP



## **GOVERNMENT OF BIHAR**

CIRCLE - R.W.D. works Circle, Kishanganj

DIVISION - R.W.D. works Division, Kishanganj-2

Name of Work :-

TO2 KATAMATHA TO TAPPU PART IV

Block :-

Dighalbank

Estimated cost :- Part B

₹ 40,42,743

Estimated cost :- Part B

₹ 20,89,244

TOTAL COST

₹ 61,31,987

Year: 2021-22

Inspection Report for Flood Damage Work : K2'shangaw -2 1.Name of PIUs : Dighalbank 2. Name Of Block / Road TOZ-Kothanotha To Tappu Part IV A. For Road 1. Damage Location / Chainage 425 m. : Sievirus cut and damaged the soudway. 2.Damage Length : ECBOPK, Bomboo pilit & Brick bot in tilling 3. Nature Of Damage EC Barx, Bambos, Bride bot, Usand ede. 4. Details Of Restoration : JCB, Tractor Trelly and homed tooks. i) Material Being Used In Restoration ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works monual. iii) Procedure Taken Up In Restoration Works 425 m. iv) Restored Length B. For Bridge 1.Damage Location / Chainage 2.Damage Length 3. Nature Of Damage 4. Details Of Restoration i) Material Being Used In Restoration ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works : : iii) Procedure Taken Up In Restoration Works iv) Restored Length

Signature of JETAE / EE

Control Signature

(Name Of Inspector)

## प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-2 अंतर्गत दीघलबैंक प्रखंड के पथ "T02 KATHAMATHA TO TAPPU PART IV" जो विभागीय Online Monitoring Syatem MIS पर अपलोड है के बाढ 2021 से क्षितिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Motorable हैतु बनाया गया है | इस कार्य को कराने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:- मु०अ०- 4 (मु०) विविध कार्य- 23-60/2020 - 1937 / पटना, दिनांक- 07.07.2021 से प्राप्त है | इस पत्र से Real time geo-tagged photograph को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Motorable) कार्य कराना स्निश्चित करने का निर्देश प्राप्त है |

उक्त निर्देश के आलोक में कंकई नदी उपधार नदी/नदी उपधार से आए बाढ़ के कारण इस पथ के Road wayके क्षितिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Motorable कार्य के साथ साथ सुरक्षात्मक कार्य कराया गया है | MIS में अपलोडेड फोटो क्षितिग्रस्त होने का,कार्य होने के दौरान का एवं पुनः स्थापित हो जाने के बाद का Lat/Long रियल टाइम के साथ लिया गया है | नेपाल तराई से निकलने वाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी | Motorable कार्य में आवश्यकता अनुसार Bamboo Pilling / Pitching of E.C. Bags filled with local sand / Local sand filling / Brick bats का इस्तेमाल किया गया है | Motorable कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है | निर्देशानुसार कराये गए कार्य का Geo-tagged photo real time के साथ MIS पर अपलोड है | MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है | प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्धतन है |

प्राक्कलन की यथा शीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके |

कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा- दीघलबैंक

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल- दीघलबैंक

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल, किशनगंज -2

## ABSTRACT OF COST

Name of V	Vork :-	T02 KATAMATHA TO TAPPU PART IV	
Block :-		Dighalbank	
SI. No.		Particulars	Amount (In Rs.)
A	Cost of Re	estoration work (PART - A) :-	₹ 33,22,905
В	Add 12 %	GST	₹ 3,98,749
С	Add 1 % L	Cess	₹ 33,229
D	Add S.Fee	@ 10 % of Material Cost	₹ 2,87,860
	Cost of F	Restoration work (PART - A) :-	₹ 40,42,743
	Cost of Re	estoration work (PART - B) :-	₹ 17,80,890
В	Add 12 %	GST	₹ 2,13,707
С	Add 1 % L	. Cess	₹ 17,809
D	Add S.Fee	@ 10 % of Material Cost	₹ 76,838
	Cost of I	Restoration work (PART - B) :-	₹ 20,89,244
	TOTAL CO	IST OF RESTORATION WORK = A + B	₹ 61,31,987

R.W.D Dighalbank

R.W.D Dighalbank Kishanganj - 2

Technical Sametion for Pr. B.), 31, 984- (Sitty one Day)

Therty one Housing nione limetres eighty seven) eng.

Below Heller Heller Heller on the control of the control of

## Detailed Estimate For the Restoration of cut and damaged portion of approach of PRIMARY SCHOOL BAGHMARA

		V				BAGHN								
ame	e of W	ork :-	T02 I	КАТАМАТНА ТО ТА	APPU PA				<b>Hoight</b>			Rate	Amou	
l. o.	SDB SI. No.	MORE Ref.No	)	Description iding bamboo piles	No.	No.	(M)	Width (M) ng of 6	(M) 2 mm t	<b>Qty.</b> o 75 mm	Unit	(Rs.)	(Rs	.)
1	WRD	5.7.7	dia b	amboo piles to size	and mak	ing shoes	and dr	iving etc	compl	ete job as				
-			pers	specification and dire	ection of	E/I	3.00	-		0.00				
							3.00	(*		0.00	1	50.24		0.00
					-				Total:		Mtr.	52.24		0.00
2	WRD	5.7.8	20 s	viding, fitting and fix swg G.I. wire or 75 t of G.I. wire or cification and directi	mm to . nails, ba	impoo la	bour fo	or com	plete jo		r			
			spe	Cilication and direct		0 0	0.00			- 0.00				
						0 0	0.00	0.00	Total		0 Sqm	426.14		0.00
							75 ~~~	n dia h	amboo					
3	WR	5.7.	pos	oplying, fitting and sition at every vertic luding cost of G.l. w	ire or na	ils, all ma				olete job a	ıs			
			per	r specification and d	irection c	J1 L/1.	30.00	)	_	- 0.0				
							30.00		-	- 0.0	-	27.73		0.00
				pplying and placin					Tota		00 Mtr	27.7.		
			tr to	ngth, 3 nos loads fill with B.A. wire 8 to 3 ying the bamboo rob Bamboo post, incarriage of all materi irection of E/I.	II at one	end at it	bamboo nplete j	nost	& royal	ity etc. a ification a	and and			
-						0 0		1	- Tot		.00 N	0. 1118.	26	0.00
	5 W		(a) c	coupplying, making a covering cover over oads by filling bould wire to the tree spur the bamboo post at bamboo post & ro complete job as per	er spall in and and least 15M	n EC bags horing the Maway fr	, trying e same om the arriage	with 20 with B.A river ba of all	to 25 S wire 8 nk inclumateria	WG annea to 10 SW uding pilin als at site	aled G to ag of e all			
1						0	0	-	- To		0.00	No. 1562	.35	0.0
	6	3.14	303.1	Construction of sull obtained from bor spreading, grading of Table 300.2 with 303.1.	row pits	with all red slope to 1000 n	lifts an and con as per	d leads	rs ith app , transp	roved man porting to et require	site, ment lause			
						1		0.00	0.00	0.00	0.00		4.02	655988.
						U	U	5.00		Total:- 37	50.00	Cum 17	4.93	022986.
				Restoration of R	ain Cuto	(Ry Mar	ual Me	eans)						
	7	10.01	3002.0	Restoration of Rai Clearing, the loose layers not exceed power rammers to	ncuts with	th soil, maching of	300mm	gravel width, cting wi	th plate	e compac				

	con.	MORD	- i-lian	No.	No.	Leng (M		ith Hei	ight VI)	Q.J.	Unit		ate (s.)	Amount (Rs.)	
1	SDB	Ref.No	Description		-	Livi			0.00	0.00					
.   5	I. No.	Ket.No		0				0.00	0.00	0.00	cm		378.68	0.	.00
	- 1				, (	, ,		To	otal:-	0.00	Cum		370.00		
			Sand filling or Type B	(First c	lass)	beddi	ng			and	-				
	9.2	1100	Sand filling or Type B Fillling and spreading	local sar	nd ov	er bri	ck bats	as per	draw	ng and					
1	(i)	& 800	technical specification C	lause 30	5.3.9				0.20	315.00					
			technical specification		1	7 3	0.00	5.00	0.30	313.00				1	
						-								16204	5.00
		-			1 -				Total:-	315.00	Cum	1 5	14.43	1020	
											+				
9	WRD	5.7.40	Brick bats Providing laying and s	aroading	brick	bats i	n Road	ditches	all cor	nplete a	S			ì	
7	,,,,,,		Providing laying and s per approved design, s	spreading	ions a	and dire	ection of	f E/I	_		-	-			
			per approved design,	Specificat						135.0	0	-			
T					1		30.00	5.00	0.90					54 24014	
					1	1	30.00	5.00	0.80		++				
-			***		1	1	30.00	5.00	1.20	180.0	00				
			DITCH		1	1	30.00	5.00	1.20	180.0					
			D		1	1	30.00	5.00	1.20	100 M I					
					1	1	30:00	5.00	0.9		-				
					1	1	30.00	5.00	0.6	0 90.	00				
									-		-				072.00
									Tota	:- 1155	.00 C	um	2168.7	2 2504	872.00
								-1	,010					- 1	
		1 40	1 Granular Sub-bas	e with W	iell G	radeu	- II Mat	terial				- 1-			
1	10 4.	-													1
		(i)	Construction of si	m layers	ub-ba with	se by tractor	providir mounte	ng well ed grad	rotaval	tor at U	MIL,				
		(i)	(By mix in place in Construction of gr spreading in unifor prepared surface, in and compacting with complete as per Te	m layers mixing by	with mix h wh pecifi	tractor in plac eel rol cation	providir mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00	ng well ed grad ed with chieve to 101. 0 0.0	rotaval he des	ired den	0.00				
		(i)	spreading in unifor prepared surface, f	m layers mixing by	with mix h wh pecifi	se by tractor in place	providir mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00	ng well ed grad ed with chieve to 101. 0 0.0	rotaval he des 00 0	ired den	0.00 0.00	Cum	2977.	.54	0.00
		(i)	construction of gi spreading in unifor prepared surface, r and compacting wi complete as per Te	m layers mixing by th smoot echnical S	with mix h wh pecifi	tractor in place eel rol cation 0 0	providir mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00	ng welled grad with thieve to 0.00 0.00 0.00	notaval he des 00 0 Tot	ired den	0.00 0.00 0.00		2977	.54	0.00
		(i)	spreading in unifor prepared surface, r and compacting will complete as per Te	m layers mixing by th smoot schnical S	with mix h wh pecifi	tractor in place eel rol cation 0 0 0 0 n Single	providir r mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00 0.00	ng well ed grad od with thieve ti 101. 0 0.0 0 0.0 (1000m	notaval he des 00 0 Tot nm Dia	.00 .00 .al:- 0	0.00 0.00 0.00		2977	.54	0.00
	11	(i)	spreading in unifor prepared surface, if and compacting will complete as per Te	m layers mixing by th smoot echnical S	with mix h wh pecifi ( ign in	tractor in place eel rol cation 0 0 0 0 n Singly cemen	providir r mounte e metho iller to ac Clause 4 0.00 0.00 le Row (	ng well ded grad od with thieve the control of the	notaval he des 00 0 Tot nm Dia NP3 fo	.00 .00 .a.) or culver	sity, 0.00 0.00 00 ts on		2977.	.54	0.00
	11	(1)	spreading in unifor prepared surface, if and compacting will complete as per Te	m layers mixing by th smoot echnical S s per des ing reinfo	with mix i h wh pecific () () () () () ()	tractor in place eel rol cation 0 0 0 n Singl cemen	providir r mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00 0.00 le Row ( t concre l in single	ng well ed grad id with thieve ti to 0 0.0 0 0.0 (1000m the pipe e row in	notaval ne des no 0 Tol nm Dia NP3 fo ncludin	.00 .00 .al:- 0. a.) or culver	o.00 0.00 0.00 ts on collar vorks,		2977.	.54	0.00
	11	(1)	spreading in unifor prepared surface, if and compacting will complete as per Te	m layers mixing by th smoot echnical S s per des ing reinfo	with mix i h wh pecific () () () () () ()	tractor in place eel rol cation 0 0 0 n Singl cemen	providir r mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00 0.00 le Row ( t concre l in single	ng well ed grad id with thieve ti to 0 0.0 0 0.0 (1000m the pipe e row in	notaval ne des no 0 Tol nm Dia NP3 fo ncludin	.00 .00 .al:- 0. a.) or culver	o.00 0.00 0.00 ts on collar vorks,		2977.	.54	0.00
	11	(1)	RCC Pipe NP3 as Providing and layi first class bedding with cement motors.	m layers mixing by th smoot echnical S s per des ing reinfo	with mix i h wh pecific () () () () () ()	tractor in place eel rol cation 0 0 0 n Singl cemen	providing mounted to accompany	ng welled grad with thieve the color of the	notaval ne des no 0 Tol nm Dia NP3 fo ncludin	.00 .00 .al:- 0. a.) or culver	0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks,		2977	.54	0.00
	11	(1)	spreading in unifor prepared surface, if and compacting will complete as per Te	m layers mixing by th smoot echnical S s per des ing reinfo	with mix i h wh pecific () () () () () ()	tractor in place eel rol cation 0 0 0 n Singl cemen	providir mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00 0.00 le Row ( at concre I in single ding exc ks in hea	ng welled grad with thieve the control of the contr	notaval ne des no 0 Tol nm Dia NP3 fo ncludin	.00 .00 .al:- 0. a.) or culver	0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause				
	11	(1)	RCC Pipe NP3 as Providing and layi first class bedding with cement motors.	m layers mixing by th smoot echnical S s per des ing reinfo	with mix i h wh pecific () () () () () ()	tractor in place eel rol cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry work	providir mounte e metho ller to ac Clause 4 0.00 0.00 le Row ( at concre I in single ding exc ks in hea	ng welled grad with thieve the color of the	notaval ne des no 0 0 Tota nm Dia NP3 fo ncludin , prote and pa	.00 .00 .al:- 0. a.) or culver	0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause			2.39	0.00
	11		RCC Pipe NP3 as Providing and layi first class bedding with cement mobackfilling, concretions.	th smoot echnical Sing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m	with mix in who pecific (ign it or ced alar mason	tractor in place eel rol cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry work 0 0	providing mounted to accompany	ng welled grad ad with thieve the control of the pipe e row introduced walls	notaval he des no 0 0 Total NP3 foncluding, prote and pa	.00 .00 .00 .al:- 0 fixing fixing ection varapets (	o.oo o.oo ts on collar vorks, clause	) ) ) Mti			
			RCC Pipe NP3 as Providing and layi first class bedding with cement mobackfilling, concretions.	th smoot echnical Sing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m	with mix in the mix is a second of the mix is	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin	providing mounted to accomple Row (at concress in hear to accomple Row (at concress i	ng welled grad and with thieve the control of the pipe e row in avation and walls of the control	notaval ne des no 0 0 Totam Dia NP3 foncludin , prote and pa	.00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00	sity, 0.00 0.00 00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o	) ) ) Mt			
	11		RCC Pipe NP3 as Providing and laying with cement mobackfilling, concretable of the providing and laying and laying with cement mobackfilling, concretable of the providing and laying laying	m layers mixing by th smoot echnical S  s per des ing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m  as per de lying reinfo	with mix h who pecificated alar mount of the but has on forced forces forced alar mount of the but has on the b	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Singly cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin d cemen	providing mounted to accomple Row (at concress in head of the concress of the	(1000m tee pipe e row in avation ad walls	notaval ne des no 0 0 Tota NP3 foncludin , prote and pa	.00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection variapets (	o.00 o.00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o	) ) ) Mti			
			RCC Pipe NP3 as Providing and laying the cament me backfilling, concreting and laying the concretion of the concretion o	th smoot echnical S sper des ing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m	with mix h who pecificated a second s	tractor in placeel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin d cemen material	providing mounted to method lier to accompany to the concretation of the concretation	(1000m the pipe e row in avation ad walls	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa  Tinm Dia se NP3 includion nro	.00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection varapets (	sity, 0.00 0.00 00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work	) ) ) Mti n ar s,			
			RCC Pipe NP3 as Providing and laying the cament me backfilling, concreting and laying the concretion of the concretion o	th smoot echnical S sper des ing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m	with mix h who pecificated a second s	tractor in placeel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin d cemen material	providing mounted to method lier to accompany to the concretation of the concretation	(1000m te pipe e row in avation ad walls	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa  Tinm Dia se NP3 includion nro	.00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection varapets (	sity, 0.00 0.00 00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work	) ) ) Mti n ar s,			
			RCC Pipe NP3 as Providing and laying with cement mobackfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and laying with cement mobackfilling, concretions.	th smoot echnical S sper des ing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m	with mix h who pecificated a second s	tractor in placeel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin d cemen material	providing mounted to accomple Row (at concret) in single ding except and the concret of the conc	(1000n tee pipe e row in cavation ad walls  (600 v (600n rete pipe gle row waxavatice ad walls	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa  Tinm Dia se NP3 includion nro	.00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection varapets (	sity, 0.00 0.00 00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work Clause	o Mti	r. 445	2.39	0.00
			RCC Pipe NP3 as Providing and laying the cament me backfilling, concreting and laying the concretion of the concretion o	th smoot echnical S sper des ing reinfo g of granu ortar 1:2 ete and m	with mix h who pecificated a second s	tractor in placeel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin d cemen material	providing mounted to accomple Row (at concret) in single ding except and the concret of the conc	(1000m te pipe e row in avation ad walls	Tomm Diage NP3 including, processes including	.00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00	sity, 0.00 0.00 00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work Clause	o Mti	r. 445		
			RCC Pipe NP3 as Providing and laying first class bedding with cement more backfilling, concretation.  RCC Pipe NP3 as Providing and laying first class bedding with cement more backfilling, concretation.  RCC Pipe NP3 as Providing and laying first class bedding with cement more backfilling, concretations.	th smoot echnical Sing reinforg of granu portar 1:2 ete and manager of granu portar 1:2 erete and	ign in the pecific of	tractor in place eel ro cation 0 0 0  n Sing cemen naterial exclud ry worl 0 in Sin d ceme materi t exclud onry wo	providing mounted to accompany	(1000m te pipe e row in avation od walls  (600 v (600m te pipe gle row waxavation od walls	notaval he des no 0 0 Total NP3 foncluding, prote and particular and particular including, protest including, protest including	.00 .00 .00 .00 .al:- 0 fixing ection varapets (	o.00 o.00 ts on collar vorks, clause 0.00 erts o g colla work Clause	))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	r. 445	2.39	0.00
	12		RCC Pipe NP3 as Providing and layi first class bedding with cement mobackfilling, concretation.  RCC Pipe NP3 as Providing and layi first class bedding with cement mobackfilling, concretation.	th smoot echnical Sing reinforg of granuortar 1:2 ete and manager of granuortar 1:2 ete and	ign in ig	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Singly cemen naterial exclud ry worl 0 in Sin d ceme materi t exclud nry worl 0 on in Sin	providing mounted to accomple Row (at concretion in single Row (at concret	(1000m te pipe e row ir avation ad walls  (600 mete pipe gle row (600m rete pipe gle row xcavation ad walls  (1000m rete pipe gle row xcavation ad walls  (1000m rete pipe gle row xcavation ad walls  (1000m rete pipe gle row xcavation ad walls	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 fo ncludin , prote and pa  Trum Dia se NP3 includio n, prote ls and p	.00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	on Mt	r. 445	2.39	0.00
			RCC Pipe NP3 as Providing and laying first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and laying and	th smoot schnical Sing reinforce and market	with mix h who pecificated alar mount of the pecification of the p	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Singly cemen naterial exclud ry worl 0 0 in Sin d ceme materi t exclud nry worl 0 o n in Sin d ceme materi t exclude on ry worl 0 o n in Sin d ceme	providing mounted to accomple Row (at concrete in single ding excepts in heat of the concrete in single row (at in single row in the concrete in the	(1000m tee pipe e row in the p	notaval he des h	.00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00	o.00 o.00 ts on collar vorks, clause o.00 erts o g colla work Clause	on Mtd	r. 445	2.39	0.00
	12		RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.	th smoot schnical S sper desing reinforce and management of granular area and management of gr	with mix h who pecificated in the control of the co	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry work 0 in Sin d ceme materi t exclud nry wo	providing mounted to accomple Row (accomple Row of the concretion	(1000m tee pipe e row in rete pipe gle row cavation ad walls  (600 constant of the pipe gle row cavation ad walls  (1000 constant of the pipe gle row cavation ad walls  (1000 constant of the pipe gle row cavatic ead walls  (1000 constant of the pipe gle row cavatic ead walls)	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa includin on, pro lis and lis and lise on pro lise NP3 includin on, pro lise NP3 includin on, pro lise NP3	tor at U ired den .00 .00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection v arapets ( for culving fixin perapets Total: 3 for cul ding fixin retection	sity, 0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause 0.00 erts o g colla work Clause 0.00 verts ng col n wor	on Mti	r. 445	2.39	0.00
	12		RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.	th smoot schnical S sper desing reinforce and management of granular area and management of gr	with mix h who pecificated in the control of the co	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry work 0 in Sin d ceme materi t exclud nry wo	providing mounted to accomple Row (accomple Row of the concretion	(1000m tee pipe e row in rete pipe gle row cavation ad walls  (600 constant of the pipe gle row cavation ad walls  (1000 constant of the pipe gle row cavation ad walls  (1000 constant of the pipe gle row cavatic ead walls  (1000 constant of the pipe gle row cavatic ead walls)	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa includin on, pro lis and lis and lise on pro lise NP3 includin on, pro lise NP3 includin on, pro lise NP3	tor at U ired den .00 .00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection v arapets ( for culving fixin perapets Total: 3 for cul ding fixin retection	sity, 0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause 0.00 erts o g colla work Clause 0.00 verts ng col n wor	on Mti	r. 445	2.39	0.00
	12		RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more providing and la first class bedding with cement backfilling, concretions.	th smoot schnical S sper desing reinforce and management of granular area and management of gr	with mix h who pecificated in the control of the co	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry work 0 in Sin d ceme materi t exclud nry wo	providing mounted to accomple Row (accomple Row of the concretion	(1000m tee pipe e row in rete pipe gle row cavation ad walls  (600 constant of the pipe gle row cavation ad walls  (1000 constant of the pipe gle row cavation ad walls  (1000 constant of the pipe gle row cavatic ead walls  (1000 constant of the pipe gle row cavatic ead walls)	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa includin on, pro lis and lis and lise on pro lise NP3 includin on, pro lise NP3 includin on, pro lise NP3	tor at U ired den .00 .00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection v arapets ( for culving fixin perapets Total: 3 for cul ding fixin retection	sity, 0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work Clause 0.0 vorts ng coll vorts ng coll vorts ng colla	on on lar	r. 445	2.39	0.00
	12		RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretations.	th smoot schnical S sper desing reinforce and management of granular area and management of gr	with mix h who pecificated in the control of the co	tractor in place eel ro cation 0 0 0  n Single cemen naterial exclud ry worl 0  in Sin d ceme materi t exclud nry worl 0  on in Si ed ceme materi t exclud nry worl contry worl on in Si ed ceme materi t exclud onry worl onry wo	providing mounted to accomple Row (accomple Row of the concretion	(1000m te pipe e row in ravation ad walls 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa includin on, pro lis and lis and lise on pro lise NP3 includin on, pro lise NP3 includin on, pro lise NP3	tor at U ired den .00 .00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection v arapets ( for culving fixin perapets Total: 3 for cul ding fixin retection	sity, 0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work Clause 0.0 0.00 vorts ng col n wort ts Claus	on o	r. 445	2.39	0.00
	12		RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more backfilling, concretions.  RCC Pipe NP3 as Providing and la first class bedding with cement more providing and la first class bedding with cement backfilling, concretions.	th smoot schnical S sper desing reinforce and management of granular area and management of gr	with mix h who pecificated has a sign force of the sign force of t	tractor in place eel ro cation 0 0 0 n Single cemen naterial exclud ry work 0 in Sin d ceme materi t exclud nry wo	providing mounted to accomple Row (at concretation in single data and the concretation in single data and the concretation in single data and the concretation in single Row (at concretat	(1000m tee pipe e row in rete pipe gle row cavatice ad walls to 1000 crete pipe gle row cavatice ad wall c	notaval ne des no 0 0 Tot nm Dia NP3 foncludin , prote and pa includin on, pro lis and lis and lise on pro lise NP3 includin on, pro lise NP3 includin on, pro lise NP3	tor at U ired den .00 .00 .00 .00 .a.) or culver g fixing ection v arapets ( for culving fixin perapets Total: 3 for cul ding fixin retection	sity, 0.00 0.00 0.00 ts on collar vorks, clause 0.00 0.00 erts o g colla work Clause 0.0 0.00 erts o g colla work Clause	on on lar	r. 445	2.39	0.00

	Amount (Rs.)	Rate (Rs.)	Jnit	٠.,.	(M)	(M) (I	No.		Description	MORD Ref.No	SDB Sl. No.	SI.
				ng the 150m in dry	hing on two rator, stacki vith a lead o illed crates	eight 50kg), s nachine & go lm x 1m x 1r , placing th	t and we ching m of size (1 ads etc , all co	oag 1.2 cft of with stick on crate of ylon thread of 30m, tion of E/I.	Supply of new bag and sand (volume of filled be approved nylon thread bags and placing in Nylo including supply of ny portion within a lead specification and direct	Rei.No	31. 140.	NO.
00	0	1249.46	No.	0.00			0 0					
						bags	ement	empty ce	Providing and filling	5.7.53		15
			4	ing the ads etc	ing on two erator, stack of nylon thre	lling new E0ght 50kg), st machine & g ncluding supp	ir for fi nd weig iching i 150m in	vith labour 1.2 cft and d with stice a lead of 1	Supply of new bag w (volume of filled bag approved nylon thread bags and placing with all complete as per app			13
					-							
00	-		Cum		Total:-		-					
.00		38.03 TOTAL	No.	0	n each bag	@ 0.034						

GNORAGE FEE 10% FOR ROYALTY MATE	RIAL 315.00	1.20	=	378.00	Cum	141.85	53619.00
LOCAL SAND	1155.00	1.20	=	1386.00		1,050.00	1455300.00
BRICK BAT	3750.00	1.28	_	4800.00		285.35	1369680.00
GSB	0.00	1.20	-		Cum	141.85	0.00
LOCAL SAND	0.00	1.20		TOTAL MAT	The state of the s	COST:-	2878599.00
		0		SEIGNORAG	F FFE	10%	287860.00

R.W.D Dighalbank

A.E R.W.D Dighalbank

Kishanganj - 2

il.	e of Wo	rk :-	ТО2 КАТАМАТНА ТО ТАР	PUPAR	IV		147: Jak	Hoigh				Rate	Amount
	SDB	MORD	Description	No.		Length (M)	(M)	(M)	٠.		ai+	(Rs.)	(Rs.)
- 1	SI. No.	Ref.No	Providing bamboo piles in	cluding	labou	r for cut	ting of	62 mm	to 75	mm			
	WRD	5.7.7	dia bamboo piles to size a	nd makir	ng sho	oes and d	riving e	tc comp	lete jo	b as			
			per specification and direc	tion of E	/1								
		-	per speciment	2	105	3.00			4-	0.00			
-				2		3.00	-			0.00	-		
				2	105	3.00	1	Total		0.00 N	1tr.	52.24	98734.00
							chacha						
2	WRD	5.7.8	Providing, fitting and fixing	ng split t	ambo	oo wover	oltornat	ively in	luding	cost			
575			20 swg G.I. wire or 75 mm	to 100	mm ic	ong nans i	to job a	s ner s	necifica	ation			
	1		of G.I. wire or nails, bam	boo labo	our 10	ir comple	te job c	,, pc. ,					
		1	and direction of E / I.	0	0	0.00	0.0	0	-	0.00			
				0			1	0		0.00		105.14	0.00
	1	-						Tota		0.00	iqm	426.14	0.00
_	11/00	5.7.9	Supplying, fitting and fix	king 62	mm 1	to 75 mr	n dia b	amboo	runne	rs in			
3	WRD	5.7.9		nila wit	h 150	) mm lor	g nans	01 20 3	WB 0.1.				
			including cost of G.I. wire	e or nails	s, all r	naterial a	and labo	our com	plete j	op as			
			per specification and dire	ection of	E/1.					80.00			
					2	3 30.0		_		80.00			
						3 30.0 3 30.0				80.00			
								Tot	al:- 5	40.00	Mtr.	27.71	14963.00
			Supplying and placing	bamboo	roll	each ro	ll of 4	nos ur	ncleare	d full			
4	WRD		1 1 75 mm dia 6 m	to 2 m	one a	it site bill	ullig pro	openy c	.ucii ot				
		(b)	to the second wi	re 20 to	25 5	WG at lea	ast at u	lies his	ces ale	1119 110			
			filled	with (B)	rick b	ats) in em	noty cen	nent ba	gs allu	r. 1 2			
			to the D.A. mira 9 to 10	SWG lat	inchir	ig in river	and his	acing in	positio	,,, ,,,,			
			the transfer call to	at one o	nd at	least 15	vı away	HOIH U	ic ilive				
			and the same factor	ding nil	ing o	f hambo	0 DOSE	& TUYO	mey ce	C. U.I.G			
			carriage of all materials	s at site	all co	omplete j	ob as p	er spec	cificatio	n and			
			direction of E/I.							0.00			
Н		-	Oncedon of a		0	0		-		0.00			
					0	0	-1	To	tal:-	0.00	No.	1118.2	6 0.00
	WR.	D 5.7.4	Supplying, making and	placing	g in	position	Tree br	anches	and J	hankni			
		(a)	· over all	chace (	of abo	our of 2.8	332 Cun	i provid	Jing 5	1105. 0			
			cur dor	coall in I	FC ha	os trving	with 20	10 23 -	WW C CIT	iiica.ca			
				d anche	ring t	he same	WITH B.F	A.WIIE	10 10 .	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
				at 1 E N A	VEWE	from the	river ba	IIIK IIICI	uumb P	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1		
		1	I I have nort at loa	ISC TOINE			TIVE! DO				11 1		
			the bamboo post at lea	lity etc.	and	carriage	or all	materi	als at	site ai			
			the bamboo post at lea	lity etc.	and	carriage	or all	materi	als at	site ai			
			I I have nort at loa	lity etc.	and	carriage	or all	materi	als at	0.00	)		
			the bamboo post at lea	lity etc.	and	carriage	or all	-	-	0.00	)	1562	25 0.0
			the bamboo post at lea bamboo post & roya complete job as per spo	lity etc. ecificatio	and on and 0 0	d directio	of all n of E/I. - -	- - T	als at	0.00	)	1562.	35 0.0
		14 30	the bamboo post at lea bamboo post & roya complete job as per spo	lity etc. ecification	and on and 0 0	d directio	n of E/I.	- - - T	otal:-	0.00 0.00 0.00	) ) ) No.	1562.:	35 0.0
	6 3.	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subgraduation of sub	lity etc. ecificatio	and on and 0 0 and ea	d directio  0 0  orthen sh	n of E/I.	- Tors	otal:-	0.00 0.00 0.00 materia	) ) ) No.	1562	35 0.0
	6 3.3	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per spots.  Construction of subground for the barrow barrows.	grade and	on and  0  0  on dearth	directio  0 0  orthen should lifts an	n of E/I.	To sith app	otal:-	0.00 0.00 0.00 materia	) ) ) No.	1562	35 0.0
	6 3.3	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per spots.  Construction of subground from borrow.	grade and w pits w	on and  0  0  on dea  earth  ith a	d direction  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	n of E/I.  noulder lders wid leads	To sith app	otal:-	0.00 0.00 0.00 materia to site	) ) ) No.	1562	35 0.0
	6 3.1	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per spots.  Construction of subground from borrow.	grade and w pits w	on and  0  0  on dea  earth  ith a	d direction  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	n of E/I.  noulder lders wid leads	To sith app	otal:-	0.00 0.00 0.00 materia to site	) ) ) No.	1562	35 0.0
	6 3.3	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per spots.  Construction of subground for the barrow barrows.	grade and w pits w	on and 0 0 0 and ea earth with a I slop 1000	of direction of the original or	n of E/I.	To sith app, transpiration men	otal:- roved r porting et requ ification	0.00 0.00 0.00 materia to site iremen	) No.	1562	35 0.0
	6 3.:	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subgrobtained from borrow spreading, grading to of Table 300.2 with lead	grade and w pits w	on and on and on and on and earth all slope 1000	orriage directio  0 0  orthen shall lifts an e and cor m as per	n of E/I.	Traces in the app, transpired to medial Spectro.	otal:- roved roorting et requification	0.00 0.00 0.00 materia to site	) ) No.		
	6 3.3	14 30	the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subgrobtained from borrow spreading, grading to of Table 300.2 with lead	grade and w pits w	on and 0 0 0 and ea earth with a I slop 1000	orriage directio  0 0  orthen shall lifts an e and cor m as per	n of E/I.	Traces in the app, transpiral to medial Spector 0.00	otal:- roved r porting et requ ification	0.00 0.00 0.00 materia to site iremen n Claus	) ) No.	1562 174	
	6 3.3		the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subgrobtained from borrow spreading, grading to of Table 300.2 with lead 303.1.	grade and w pits w required ad upto	on and on an and on and on an analysis	orrinage didirectio 0 0 orthen shou ll lifts an e and cor m as per 0 0	n of E/I.  -  noulder Iders wid leads mpacted Technic	Traces in the app, transpiral to medial Spector 0.00	otal:- roved roorting et requification 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 materia to site iremen n Claus 0.0	) No.		
			the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subsections of subsecti	grade and w pits w required ad upto	and on and on	orrinage d directio 0 0 arthen shou Il lifts an e and cor m as per 0 0	n of E/I.  noulder Iders wid leads mpacted Technic 0.00 0.00 ans)	To sith app, transpiral to meral Spec	otal:- roved roorting et requification 0.00 0.00 Total:-	0.00 0.00 0.00 materia to site iremen n Claus 0.0 0.00	) No.		
			the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subgrobtained from borrow spreading, grading to of Table 300.2 with lead 303.1.	grade and w pits w required ad upto	and on and on and earth all slopp 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	of then should lifts an eand corum as per	n of E/I.  noulders wid leads, mpacted Technic 0.00 0.00 ans)	To sith app, transpit to metal Spec	otal:- roved roorting et requification 0.00 0.00 fotal:-	0.00 0.00 0.00 materia to site iremen n Claus 0.0 0.00	) No. No. ct ee Cum		
			the bamboo post at lead bamboo post & royal complete job as per special construction of subsections of subsecti	grade and w pits w required and upto	on and on an analysis on an	orrinage difference of the original or	n of E/I.  noulder Iders wid leads mpacted Technic  0.00 0.00 ans) gravel width,	Tres ith app, transplate to me al Spec 0.00 0.00 or a m laying f	otal:- roved reporting et requification 0.00 0.00 Total:- ixture or	0.00 0.00 0.00 materia to site iremen n Claus 0.0 0.00 0.00 of thes aterial	No.		

	SDB	MORD	Description	No.	No.	Length			Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
10.	SI. No.	Ref.No			0	(M) 0.00	(M) 0.00	(M) 0.00	0.00		(15.)	(113.)
				0		0.00	0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	Total:-	0.00	Cum	378.68	0.00
8	9.2	1100	Sand filling or Type B	(First cla	ass) b	edding						
U	(i)	& 800	Fillling and spreading	ocal sand	d ove	r brick b	ats as p	oer draw	ving and			
	(1)	4000	technical specification Cl									
				1		30.00	2.20	0.30	19.80			
				1		0.000	2.40	0.30	14.40			
				1		15.00	2.50	0.30	11.25			
				1	1	18.00	2.20	0.30	11.88			
				1	1	22.00	2.70	0.30	17.82			
				1	1	20.00	2.20	0.30	13.20			
				1	1	25.00	2.20	0.30	16.50			
				1	1				11.70			
				1	1	17.00	2.50		12.75	-	54442	CCE16 00
								Total:-	129.30	Cum	514.43	66516.00
9	WRD	5.7.40	Brick bats							L		
			Providing laying and sp					es all con	nplete as			
			per approved design, sp	ecification	ns and					-		
				1					59.40			
				1	-	700.00			57.60		-	
				1					56.25			
				1					63.36	1		
				1					71.28 48.40	1		
				1				-	66.00	+		
				1					54.60		-	
				1					63.75	+		
				1	1	17.00	2.50	1.50	03.73			
-		-										
		1						Total:-	540.64	Cum	2168.72	1172497.00
10	4.1	401	Granular Sub-base w	th Well	Grade	ed Mater	ial	_				
		(i)	(Ry mix in place met)	od) For	Gradi	ing II Ma	terial	anadad	material			
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu	ar sub-b	ase b	ing II Ma y providi	terial ng well	graded	material,			
		(i)	(By mix in place meth Construction of granul spreading in uniform la	ar sub-b yers with	ase b	ing II Ma y providi or mounte	t <b>erial</b> ng well ed grade	r arrange	ement or	1		
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixir	ar sub-b yers with ig by mix	ase b tracto in pla	ing II Ma y providi or mounte ice metho	terial ng well ed grade d with r	r arrange otavator	ement on at OMC			
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with sn	ar sub-b yers with ng by mix nooth wh	ase b tracto in pla neel ro	ing II Ma y providi or mounte ice metho oller to ac	terial ng well ed grade d with r hieve th	r arrange otavator	ement on at OMC			
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixir	ar sub-b yers with ig by mix nooth wh cal Specifi	tractor in planeel re cation	ing II Ma y providi or mounted ice metho oller to ac i Clause 4	terial ng well ed grade d with r hieve th	r arrange otavator e desire	at OMC d density			
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with sn	ar sub-boyers with ag by mix nooth who cal Specifi	tractorin planeel rocation	ing II Ma y providi or mounte ice metho oller to ac in Clause 40 0 0.00	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00	otavator e desired	at OMC d density			
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with sn	ar sub-boyers with ag by mix nooth who cal Specifi	tractor in planeel re cation	ing II Ma y providi or mounte ice metho oller to ac in Clause 40 0 0.00	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00	otavator e desired	at OMC d density 0.00		2977.54	0.00
		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with sr complete as per Technic	ar sub-b yers with ng by mix nooth wh cal Specifi	tractor in planeel recation	ing II Ma y providi or mounte ice metho oller to ac n Clause 40 0 0.00	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00	otavator e desired 0 0.00 0 0.00 Total:-	at OMC d density 0.00		2977.54	0.00
11		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixir and compacting with sr complete as per Technic	ar sub-boyers with ag by mix nooth wheal Specifical Spe	tractorin planeel rocation	ing II Ma y providi or mounte oce metho oller to ac of Clause 40 0 0.00 0 0.00	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00	er arrange otavator e desired 0 0.00 0.00 Total:-	o.00	Cum	2977.54	0.00
11		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying re	ar sub-b yers with ng by mix nooth wh cal Specifi ( design in	tractor in planeel rocation (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO)	ing II Ma y providi or mounte ice metho oller to ac n Clause 4i 0 0.00 0.00 le Row (2)	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00	otavator e desired 0.00 0.00 Total:- m Dia.)	o.00 0.00 ulverts or	Cum	2977.54	0.00
11		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of gr	ar sub-boyers with a by mix mooth who cal Specification in forced canular m	tractor in planeel recation () () () () () () () () () () () () ()	ing II Ma y providi or mounte ce metho oller to ac n Clause 40 0 0.00 0 0.00 le Row (2 nt concret I in single	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl	otavator e desired 0 0.00 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix	o.00 0.00 0.00 ulverts or	Cum	2977.54	0.00
11		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of gr with cement mortar	yers with ng by mix nooth wh cal Specifi  design in inforced canular m 1:2 but	tractor in planeel recation of Constant Sing cemerateria exclude	ing II Ma y providi or mounte ce metho oller to ac n Clause 40 0.00 0.00 le Row (2 nt concret I in single ding exca	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation,	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix	o.00 0.00 0.00 ulverts or king colla	Cum	2977.54	0.00
11		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of gr with cement mortar backfilling, concrete an	yers with ng by mix nooth wh cal Specifi  design in inforced canular m 1:2 but	tractor in planeel recation of Constant Sing cemerateria exclude	ing II Ma y providi or mounte ce metho oller to ac n Clause 40 0.00 0.00 le Row (2 nt concret I in single ding exca	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation,	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix	o.00 0.00 0.00 ulverts or king colla	Cum	2977.54	0.00
111		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of gr with cement mortar	ar sub-b yers with ng by mix nooth wh cal Specifi ( design in inforced ( anular m 1:2 but d masonr	tractor in planeel recation () () () () () () () () () () () () ()	ing II Mary providing mounted accemethodoller to accement to a control of the con	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 t 000mr e pipe N row incl vation, walls ar	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix	o.00 0.00 0.00 ulverts or king colla	Cum	2977.54	0.00
111		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of gr with cement mortar backfilling, concrete an	ar sub-b yers with ng by mix nooth wh cal Specifi ( design in inforced ( anular m 1:2 but d masonr	tractorin planeel recation  Sing cemer ateria excludy world	ing II Ma y providi or mounte ce metho oller to ac n Clause 40 0.00 0.00 le Row (2 nt concret I in single ding exca	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1.000mr e pipe N row incl vation, walls ar	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum		
111		(i)	(By mix in place meth Construction of granu spreading in uniform la prepared surface, mixin and compacting with so complete as per Technic RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of gr with cement mortar backfilling, concrete an	ar sub-b yers with ng by mix nooth wh cal Specifi ( design in inforced ( anular m 1:2 but d masonr	tractor in planeel recation () () () () () () () () () () () () ()	ing II Mary providing mounted accemethodoller to accement to a concentration of the concretation of the co	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1.000mr e pipe N row incl vation, walls ar	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum	2977.54	
11		(i)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform la prepared surface, mixing and compacting with successful surface.)  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grant with cement mortar backfilling, concrete an 1106.	ar sub-byers with ag by mix mooth who cal Specific (design in inforced canular masonroll design in design in design in the calculation of the calc	tractorin planeel recation  Sing cemer ateria excludy world	ing II Ma y providi or mounte oce metho oller to ac of Clause 40 0 0.00 le Row (2 int concret I in single ding exca is in head	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1.000mr e pipe N row incl vation, walls ar	otavator e desired 0 0.00 Total:- n Dia.) P3 for cuding fix protection d parapet	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum		
		(i)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform la prepared surface, mixing and compacting with successful surface.)  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grain with cement mortar backfilling, concrete and 1106.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grain backfilling, concrete and 1106.	ar sub-byers with ag by mix mooth who cal Specific () () () () () () () () () () () () ()	tractorin planeel recation (Constitution of Constitution of Co	ing II Ma y providi or mounte oce metho oller to ac o Clause 40 0.00 0.00 le Row (2 ot concret I in single ding exca ks in head 2 2.50 0.00 lle Row (4 ot concret	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation, walls ar	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for couding fix protection d parapet  Total:- Dia.) IP3 for co	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum		
		(i)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform la prepared surface, mixing and compacting with successful surface.)  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of granus with cement mortar backfilling, concrete an 1106.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of granus first class cla	ar sub-byers with a by mix mooth who cal Specific (andesign in inforced canular masonr design ir inforced ca	ase b tractorin planeel rocation Con Sing cemerateria exclude y work	ing II Ma y providi or mounte oce metho oller to ac of Clause 40 0.00 0.00 le Row (2 of concret of in single ding exca of concret	terial ng well ed grade d with r hieve th  10. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	otavator e desired 0 0.00 Total:- m Dia.) IP3 for cu uding fix protection d parapet  Total:- Dia.) IP3 for cu uding fix	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum  Cum  Mtr.		
		(i)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform laprepared surface, mixing and compacting with successful surface.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grain with cement mortar backfilling, concrete and 1106.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grain with cement mortar backfilling and laying refirst class bedding of grain with cement mortar.	design in inforced danular masonr design ir inforced anular masonr	ase b tractor in planeel rocation (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO)	ing II Ma y providi or mounts oce metho oller to ac o Clause 40 0 0.00 0 0.00 le Row (2 1 in single ding exca ks in head 2 2.50 0 0.00 le Row (4 1 in single ding exca it concret it in single	terial ng well ed grade d with r hieve th O1. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation, walls ar e pipe N row inc	otavator e desired  0 0.00 Total:- n Dia.) P3 for couding fix protection Dia.) IP3 for coluding fix protection Up3 for coluding fix protection	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum		
		(i)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform laprepared surface, mixing and compacting with successful surface.)  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grant with cement mortar backfilling, concrete an 1106.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grant surface.	design in inforced danular masonr design ir inforced anular masonr	ase b tractor in planeel rocation (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO) (CO)	ing II Ma y providi or mounts oce metho oller to ac o Clause 40 0 0.00 0 0.00 le Row (2 1 in single ding exca ks in head 2 2.50 0 0.00 le Row (4 1 in single ding exca it concret it in single	terial ng well ed grade d with r hieve th O1. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation, walls ar e pipe N row inc	otavator e desired  0 0.00 Total:- n Dia.) P3 for couding fix protection Dia.) IP3 for coluding fix protection Up3 for coluding fix protection	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum		
		(i)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform laprepared surface, mixing and compacting with successful surface.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grain with cement mortar backfilling, concrete and 1106.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grain with cement mortar backfilling and laying refirst class bedding of grain with cement mortar.	design in inforced danular masonr design in inforced anular masonr	ase b tractor in pla neel re cation 0 0 Sing cemer ateria exclud y worl 0 0 Sing cemer ateria exclud y worl	ing II Mary providing mounted accement to accement to accement to accement to accement to accement to accement accement to access to	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation, walls ar e pipe N row incl vation, f walls ar	otavator e desired  0 0.00 Total:- n Dia.) P3 for couding fix protection Dia.) IP3 for coluding fix protection Up3 for coluding fix protection	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Cum  Cum  Mtr.		0.00
		(1)	(By mix in place meth Construction of granus spreading in uniform laprepared surface, mixing and compacting with successful surface.)  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grant with cement mortar backfilling, concrete an 1106.  RCC Pipe NP3 as per Providing and laying refirst class bedding of grant surface.	design in inforced danular masonr design in inforced anular masonr	ase b tractor in pla neel re cation 0 (0 Sing cemer ateria exclud y worl 0 (0 Sing cemer ateria exclud y worl	ing II Ma y providi or mounts oce metho oller to ac o Clause 40 0 0.00 0 0.00 le Row (2 1 in single ding exca ks in head 2 2.50 0 0.00 le Row (4 1 in single ding exca it concret it in single	terial ng well ed grade d with r hieve th 01. 0.00 0.00 1000mr e pipe N row incl vation, walls ar e pipe N row incl vation, f walls ar	otavator e desired  0 0.00 Total:- n Dia.) P3 for couding fix protection Dia.) IP3 for coluding fix protection Up3 for coluding fix protection	on works on works on works collar on works on works on works collar on works on works collar on works	Cum  Cum  Mtr.		

SI.	SDB	MORD	Description	No.	No.	Length (M)	Width (M)	Height (M)	Qty.	Unit	Rate (Rs.)	Amount (Rs.)
No.	SI. No.	Ref.No	Providing and laying reinfo	rced ce	ement	concrete	pipe N	P3 for c	ulverts on			
			first class bedding of granu	lar ma	terial i	in single	row inclu	uding fi	xing collar			
			with cement mortar 1:2	but e	xcludi	ng excav	ation, p	rotectio	on works,			
			backfilling, concrete and m	asonry	works	in head	walls an	d parap	ets Clause			
			1106.	0	0	0.00			0.00			
				0		7.5 14.50.000	-		0.00			
						0.00		Total:	0.00	Mtr.	1752.33	0.00
1.4		5.7.52	Supply of new bag with	NC.				, ,				
14		5.7.52	Supply of new bag and N	C with	labou	r for filli	ng new	EC bag	with local			
			sand (volume of filled bag	1.2 cft	and w	eight 50	kg), stich	ing on t	wo line by			
			approved nylon thread w	ith stic	hing r	nachine	& gener	ator, st	acking the			
			bags and placing in Nylon o	crate o	f size (	1m x 1m	x 1m) w	ith a lea	d of 150m			
			including supply of nylon	threa	ds et	c, placin	g the fi	lled cra	tes in dry			
			portion within a lead of	30m.	all co	omplete	as per	approv	ed design,			
			specification and direction	of E/I.		•						
	-	-	specification and direction	(	0		-	-	- 0.00			
-				(			-	-	- 0.00			0.00
-		-							0.00	No.	1249.46	0.00
15		5.7.53	Providing and filling en	ipty ce	ement	t bags						
13		011100	Supply of new bag with	labour	for f	filling ne	w EC ba	g with	local sand	i		
			(volume of filled bag 1.2	cft ar	nd wei	ight 50kg	), stichi	ng on t	wo line by	/		
			approved nylon thread w	ith sti	ching	machine	& gene	rator, s	tacking the	2		
			bags and placing with a le	ad of 1	50m i	ncluding	o ylagus	f nylon	threads et			
			all complete as per approv	ed des	ion sr	necificati	on and d	irection	of E/I.			
			all complete as per approv							1		
				-		30.0				-		
						20.0						
						1 15.0						
						1 18.0 1 22.0						
					-							
						1 20.0 1 25.0						
						1 15.0		-				
		1				1 17.0						
				-	1 -	17.0	,,,					
								Tota	1:- 382.8	0 Cum		
						@ 0.	034 Cum		-	9 No.	38.03	428180.00
											TOTAL	1780890.0

SEIGNORAGE FEE 10% FOR ROYALTY N	13	9.30	1.20	=	155.16	Cum	141.85	22009.00
LOCAL SAND					648.77		1.050.00	681206.00
BRICK BAT	5	40.64	1.20	=	646.77	Cuiti		0.00
BRICK BAT		0.00	1.28	=	0.00	Cum	285.35	0.00
GSB	2	82.80	1.20	=	459.36	Cum	141.85	65160.00
LOCAL SAND	3	82.00	1.20	Т	OTAL MAT	ERIAL C	OST:-	768375.00
					EIGNORAG		10%	76838.00

R.W.D Dighalbank A.20 [11]27

A.20 [11]27

R.W.D

Dighalbank

R.W.D.C. 2. 2. Kishanganj - 2